



## 1 महत्वपूर्ण निर्देश

### IMPORTANT INSTRUCTIONS

- 1.1 ऑनलाइन प्रवेश सम्बन्धी निर्देश विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम, अध्यादेशों तथा नियमों द्वारा अधिकृत हैं।  
The instructions related to the online admissions are given here, which are authorized under the Act, Ordinances, Rules & Regulations of the University.
- 1.2 गैप प्रमाण-पत्र: यदि स्नातक परीक्षा/अर्हता परीक्षा के बाद प्रवेश लेने में अन्तराल हो तो अन्तराल के कारण का 10रु0 के स्टाम्प पेपर पर निर्गत नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र प्रवेश के समय जमा करें।  
Gap Certificate: If there is gap in taking admission after graduation/qualifying examination, then a certificate by the Notary on Rs. 10.00 Stamp paper has to be submitted at the time of admission.
- 1.3 यदि आप आरक्षण (reservation) अथवा शून्य शुल्क (zero fee) का लाभ चाहते हैं तो सम्बन्धित प्रमाण-पत्र का विवरण आनलाइन आवेदन के साथ अवश्य दें। आवेदन पत्र प्रेषित करने के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को भारण या आरक्षण में परिवर्तन की अनुमति नहीं मिलेगी।  
If you want benefit of reservation or zero fees, then give the details of the related certificates during the filling of the Online application form. No candidate will get the permission for any change in weightage or reservation after the form is submitted.
- 1.4 प्रवेश प्रक्रिया की विस्तृत सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विश्वविद्यालय की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।  
The detailed information of the admission procedure will be displayed on the University website. Candidates are advised to check the University website regularly for updates.
- 1.5 योग्यता सूची घोषित होने पर इसकी प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखने के लिए उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी को स्वयं अपना योग्यता-क्रमांक, योग्यता-सूची से ज्ञात करना होगा। योग्यता-सूची समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं करायी जायेगी।  
After declaration of the merit list a copy of the list will be displayed on the University website. The candidate himself/herself will find his/her merit number from the merit list. The merit list will not be published in the newspaper.
- 1.6 वे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तथा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ अनुमत्त होगा तथा अन्य प्रदेशों के अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे।  
The benefit of reservation will be permissible only to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes candidates originally belonging to Uttar Pradesh. Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes candidates of other states will be treated as general candidate.
- 1.7 रजिस्ट्रेशन के समय जमा किया गया समस्त शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।  
All fees deposited at the time of registration will not be refunded under any circumstances.
- 1.8 छात्रत्व के दौरान रैगिंग जैसी कुत्सित घटना में सम्मिलित होने पर छात्र के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।  
As directed by the Hon'ble Supreme Court, action will be taken against the students who indulge in incidence like ragging during studentship.
- 1.9 वे अभ्यर्थी जो किसी भी विश्वविद्यालय/विद्यालय/संस्था से निष्कासित किये गये हैं अथवा भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषी पाये गये हैं वह लखनऊ विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में आवेदन करने के लिये अयोग्य होंगे।  
Those candidates who have been expelled from any University/College/Institution or found guilty under Indian Penal Code are not eligible to apply for any course in the University of Lucknow.
- 1.10 जाति तथा आय प्रमाण पत्र वेबसाइट से प्रमाणित किया जायेगा।  
Caste and income certificates shall be verified on internet.



## 2 About the B.El.Ed. program

2.1 The Ordinances pertain to the Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.), which is a four- year professional degree programme of Teacher Education offered after Senior Secondary. The Programme is in a regular full time mode. It aims to prepare teachers for the elementary stage of education. i.e. for Classes I to VIII. In addition, the programme prepares students for a wide range of professional and academic options in elementary education including teaching in elementary schools with special orientation for government schools; leading elementary school systems in various capacities; teaching and research in elementary education in the government and non-governmental sector; pursuing post-graduate and research studies in education and other disciplines; and working as teacher educators in various State/Central Institutes and University Departments/Colleges offering programmes in elementary education.

2.2 The B.El.Ed. programme shall be offered only in a constituent or affiliated college of Lucknow university offering undergraduate studies in liberal arts, humanities, social sciences, commerce, mathematics and sciences, or a constituent or affiliated college of Lucknow University offering multiple Teacher Education Programme or Department of Education, Lucknow University itself.

## 2.3 Duration

2.3.1 The integrated Elementary teacher education Degree programme ,henceforth , called the Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.), shall be of a minimum duration of four academic years, including an Internship of a minimum **20** working weeks of which **4** weeks shall be in third year of study and **16** working weeks shall be in a fourth/ final year of study.

2.3.2 Candidates admitted in this programme shall complete the final year examination within 6 years from the year of admission.

2.3.3 There shall be at least two hundred working days each year exclusive of admission and conduct of examination, and inclusive of the period of classroom transaction, practicum, engaging with schools and school internship. The institution shall work for a minimum of thirty six hours in a week (five or six days), during which faculty shall be available for the requirements of the programme including interaction with and mentoring students.

2.3.4 The minimum attendance of student teachers shall be 80% for all course work including practicum, and 90% for school internship.

## 2.4 Essential Qualification

2.4.1 The minimum qualifications for admission to the B.El.Ed. shall be a pass in the 10+2 Senior Secondary Examination or any other examination recognized as equivalent thereto with a minimum aggregate of Fifty percent marks.

2.5 The reservation and relaxation of marks for SC/ST/OBC and other categories shall be as per rules of the central Government / state Government whichever is applicable.

2.6 University reserves the right to cancel any admission at any stage.

2.7 In case of any matter relating to the B.El.Ed. Admissions, the decision of the Vice-Chancellor/Admission Committee, Lucknow University shall be final and binding.

2.8 All the legal matters pertaining to the B.El.Ed Admissions shall be subject to the Lucknow Jurisdiction only.



## 3 आरक्षण नीति / Reservation Policy

### 3.1 आरक्षण / Reservation

#### 3.1.1 उर्ध्वाधर / Vertical

3.1.1.1 Scheduled Caste\* 21%

अनुसूचित जाति (अधिकतम आरक्षण )

3.1.1.2 Scheduled Tribe\* 2%

अनुसूचित जनजाति (अधिकतम आरक्षण )

3.1.1.3 Other Backward Classes of U.P\* 27%

अन्य पिछड़ा वर्ग (अधिकतम आरक्षण )

\*वे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, को ही आरक्षण का लाभ देय होगा तथा अन्य प्रदेशों के अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे।

\*The scheduled caste, scheduled tribes and other backward class candidates originally belonging to Uttar Pradesh will be given the benefit of reservation. Scheduled castes, scheduled tribes and other backward class candidates of other states will be treated as general.

#### 3.1.2 क्षैतिज आरक्षण / Horizontal Reservation

3.1.2.1 Son/daughter / spouse of LU Teachers/Employees As per University rules  
लखनऊ विश्वविद्यालय अध्यापकों/ कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति

3.1.2.2 Son/daughter/spouse of LU affiliated Govt./Aided Colleges of Lucknow University and Govt. Ayurvedic College As per University rules  
लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय एवं राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के अध्यापकों के पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति

3.1.2.3 Physically Handicapped/Disabled 3%

विकलांगों के लिए (including 1% for blinds) (दृष्टि बाधितों हेतु 1% को सम्मिलित करते हुए)

3.1.2.4 Son / Daughter / Grand Son / Grand Daughter of Freedom Fighters from U.P. 2%

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्री/पौत्र/अविवाहित पौत्री के लिए

3.1.2.5 Son/Daughter of Retd. Defence Personnel or Physically Handicapped Defence Personnel or Defence Personnel killed in war or Defence Personnel posted in UP. 5%

सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिकों (स्वयं) अथवा शारीरिकरूप से विकलांग सैनिकों अथवा युद्ध में शहीद हुये सैनिकों अथवा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सेवारत सैनिकों के पुत्र/पुत्री के लिए

### 3.2 वर्ग प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी /Competent authorities for issuance of certificates

3.2.1 विकलांग जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी

Physically Handicapped (3.2.2.3) Chief Medical Officer of District

3.2.1 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी जिलाधिकारी

Freedom Fighter (3.2.2.4) District Magistrate

3.2.3 अनुसूचित जाति \* जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार

Scheduled Caste (3.2.1.1) District Magistrate, Additional District Magistrate, City Magistrate, Pargana Magistrate or Tehsildar



- 3.2.4** अनुसूचित जनजाति \*  
Scheduled tribes (3.1.1.1) जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार  
District Magistrate, Additional District Magistrate, City Magistrate, Pargana Magistrate or Tehsildar
- 3.2.5** अन्य पिछड़ा वर्ग \*  
Other backward class (3.2.1.3) जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार  
District Magistrate, Additional District Magistrate, City Magistrate, Pargana Magistrate or Tehsildar
- 3.2.5.4** आय-प्रमाणपत्र (छ: माह के अन्दर का) \*  
Income certificate (within 6 months) जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार  
District Magistrate, Additional District Magistrate, City Magistrate, Pargana Magistrate or Tehsildar
- 3.2.6** विश्वविद्यालय के अध्यापक/कर्मचारी  
कुलसचिव लखनऊ विश्वविद्यालय।  
01 मार्च 2017 के पूर्व निर्गत यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।  
Teachers/ Employees of University (3.2.2.1) Registrar, University of Lucknow. The certificates issued before 1st March, 2017 will not be considered.
- 3.2.7** राजकीय अनुदान प्राप्त लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय एवं राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के अध्यापक  
महाविद्यालय के प्रधानाचार्य  
Teacher of the affiliated Govt./Aided Colleges of Lucknow University and Govt. Ayurvedic College (3.2.2.2) Principal of the college
- \* आरक्षण तथा आय प्रमाण पत्र वेबसाइट से सत्यापित किया जायेगा।  
\* Caste & Income certificates shall be verified from relevant Government websites.



## 4 Admission Process

4.1 Candidates seeking admission to the four year degree programme in Elementary teacher Education shall have to qualify in the prescribed Centralized Entrance Test (CET), specially designed to assess the candidate's potential or any other selection process as per the policy of Lucknow University.

4.2 In the B.El.Ed. program for the Session 2017 - 18 shall be admitted on the basis of marks obtained in the entrance examination conducted for this purpose.

4.2.1 The entrance test will comprise of 100 objective type questions to be answered in 90 minutes. The questions will be from Language ability (Hindi and English), General Awareness, Logical Reasoning, Mental Ability

4.2.2 Order of Merit will be determined as follows :-

4.2.2.1 If two or more candidates have secured equivalent marks/rank in the merit Index, then the merit for admission will be determined as follows:-

4.2.2.2 If the marks secured in the entrance test are same in such cases first preference will be given to the candidate who secures higher percentage of marks at Intermediate or equivalent examination.

4.2.2.3 If the marks obtained at the Intermediate or equivalent examination are the same in such cases first preference will be given to the candidate who secures higher percentage of marks at High School or equivalent examination.

4.2.2.4 If the marks obtained at the High School or equivalent examination are the same, then in that case the older candidate will be given priority.

## 4.3 Intake

Total intake of B.El.Ed. Course in one unit shall not exceed fifty students in a class or decided by NCTE norms enforced from time to time.



**5**

**Helpline**

Technical Helpline

0522-4150500

Program Helpline

7971200570



## REQUIREMENTS FOR FORM SUBMISSION

- **Valid Email ID**
- **Active Mobile Number**
  - Mobile number should be with the applicant at the time of form filling
  - All relevant information regarding admission would be sent to this mobile number.
- **Alternate Mobile Number** (Preferably of parent)
- **Photo** in JPEG format (Maximum upload size is 50 KB only)
- **Scanned Signature** in jpeg format (Maximum upload size is 50 KB only)
- **High School and Intermediate Mark sheet.**
- **Aadhar Card**
- **Photo ID proof** (for entering number)
  - Any one of the following for entering the number at the designated place in the online application form
    - Aadhar Card, Voter ID, Driving License, Passport.
- **Important Dates**
  - Last date for form submission without late fee **July 18, 2017**
  - Last date for form submission with late fee of Rs. 500.00 **July 21, 2017**
- **Application Fee**
  - General and OBC Rs. 1000.00 (With late fee Rs. 1500.00)
  - SC and ST Rs. 500.00 (With late fee Rs. 1000.00)
- **Caste certificate**
  - The number of caste certificate issued by the competent authority will have to be entered for availing the benefit of reservation for OBC, SC and ST applicants.
  - For OBC applicants this certificate should be issued after July 1, 2014 and be valid on the day of verification. Validity of these certificates will be verified from the Government website.
  - The scheduled caste, scheduled tribes and other backward class candidates originally belonging to Uttar Pradesh will be given the benefit of reservation. Scheduled castes, scheduled tribes and other backward class candidates of other states will be treated as general.
- **Income Certificate**
  - Applicants will have to enter the number of these certificates at the time of filling of the form.
  - All certificates will be verified through the Government website.
  - Certificates whose details are not available on this website will not be entertained.
  - The applicants who do not have a valid income certificate issued by competent authority will not be given benefit of zero fees at the time of admission.



## FORM FILLING

- During the form filling process the applicant can make the entries and save the information.
- If the applicant is unable to fill the form in one sitting or somehow the process is interrupted there is no need to register again. They can login using the credentials sent on their mobile numbers and continue the process.
- Applicants are advised to check all the data they have entered before submitting the application fee. If there is some error they can edit these or start the entire process again. Once they have submitted the application fee the data submitted in the registration page cannot be edited under any circumstances.
- **Step 1 Registration**
  - Applicants have to fill the relevant details in the form provided. These fields cannot be edited later.
  - Applicants will receive their login details in the mobile number and email ID provided at the time of registration.
- **Step 2 Personal Details**
  - Applicants have to enter their personal details
- **Step 3 Educational Qualifications**
  - Applicants have to fill their educational qualifications.
    - **Enter the marks of all the subjects mentioned in the mark sheets**
- **Step 4 Upload photo and signature**
  - Applicants have to upload their photo and scanned signature.
- **Step 5 Preview**
  - Applicants can preview all the entries made at this point. If there is some error they can edit these or start the entire process again. Once they have submitted the application fee the data submitted in the registration page cannot be edited under any circumstances.
- **Step 6 Application Fee**
  - If all the entries in the application form are correct the applicant can submit the form and proceed for payment of the application fees.
  - Form fees can be submitted by any of the following ways
    - Credit Card, Debit Card, Net Banking
- **Step 7 Print Application form**
  - Applicants can print their complete application form and fee receipt to complete the application process.
  - Applicants have to retain a printout of their application form which would be needed later on.
  - **Applicants do not have to send the print out of the application form to the University.**

## Data Editing

- Restricted data can be edited by the candidate by logging in to the admission website using the credentials sent to their email and registered mobile number. In case the candidate has missed out on the login details they can regenerate their password by clicking on the **forgot password** link and entering their registration number. The new login details would be sent to their registered mobile number. **The data submitted in**





the registration page and the opted category cannot be edited under any circumstances.